




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 2001 (श्रावण 13, 1923)  
No. 31] NEW DELHI SATURDAY, AUGUST 4, 2001 (SRAVANA 13, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग 1—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय  
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय  
नई दिल्ली-66, दिनांक 9 जुलाई 2001

सं० ए-19013/2/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति श्री सी० ए० मुखर्जन, केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं को मंत्रिमण्डल सचिवालय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में तैनातमान रु० 12000-375-16500/- में दिनांक 3 जुलाई, 2001 के पूर्वाह्न में, अपने आदेशों तक उप सचिव के पद पर मर्त्य नियुक्त करते हैं।

वी० चन्द्रशेखरन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2001

सं० एफ-6 (1537)/92-प्रशासन-1—आई०ई०एम० के एम० ए० जी० स्तर पर पदोन्नति तथा स्वास्थ्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप  
1-172 41000

(617)

श्री के० वी० कृष्णन, निदेशक, योजना आयोग को स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्यभार सभालने के लिए दिनांक 26 जून, 2001 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त किया जाता है।

टी० आर० सीणा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2001

सं० एफ-6 (1416)/90-प्रशासन-1—आई०ई०एम० के एम० ए० जी० स्तर पर पदोन्नति तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप श्री के० के० नारंग, निदेशक, योजना आयोग को पर्यावरण और वन मंत्रालय में कार्यभार सभालने के लिए दिनांक 22 जून, 2001 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ-6 (1572)/93-प्रशासन-1-आई०ई०एस० के एल० ए० जी० स्तर पर पदोन्नति तथा रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में आर्थिक सहायकार के पद पर उनकी तैनाती के लिए दिनांक 25 जून, 2001 (अपराह्न) से कार्य-मुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ-6 (1811)/2000-प्रशासन-1-आई०ई०एस० के एल० ए० जी० स्तर पर पदोन्नति तथा इस्पात मंत्रालय में आर्थिक सहायकार के पद पर उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप डा० (कुमारी) एस० रोहिणी, निदेशक, योजना आयोग की इस्पात मंत्रालय में कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 25 जून 2001 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 2 जुलाई 2001

सं. एफ-6 (1716)/97-प्रशासन-1-आई०ई०एस० के एल० ए० जी० स्तर पर पदोन्नति तथा कपड़ा मंत्रालय में आर्थिक सहायकार के पद पर उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप श्री डी० के० मुखोपाध्याय, निदेशक, योजना आयोग को कपड़ा मंत्रालय में कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 2 जुलाई, 2001 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई, 2001

सं. एफ-6 (1741)/98-प्रशासन-1-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वॉशिंगटन के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया ने दिनांक 3 जुलाई, 2001 (अपराह्न) से योजना आयोग में सदस्य के कार्यालय का कार्यभार त्याग दिया है।

2. श्री अहलूवालिया को दिनांक 4 से 6 जुलाई, 2001 तक 3 दिन का अर्जित अवकाश एवं 7 और 8 जुलाई, 2001 को अनुयोजित करने की मंजूरी प्रदान की जाती है। तदनुसार उन्हें योजना आयोग दिनांक 8 जुलाई सहित/तक वेतन देना।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2001

सं. एफ-6 (1413)/90-प्रशासन-1-आ० ई० एस० के एल० ए० जी० स्तर पर पदोन्नति तथा औद्योगिक नीति तथा संशोधन विभाग में आर्थिक सहायकार के पद पर उनकी तैनाती

के परिणामस्वरूप श्री अमरनाथ, निदेशक, योजना आयोग की औद्योगिक नीति तथा प्रबंधन विभाग में कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2001 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं. ए०-43014/4/2000-प्रशा०-II-माध्यमिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 26 जून, 2001 के आदेश सं० 12015/3/2001-आई० एस० एस० के अनुसरण में, राष्ट्रपति, मंत्री मतोष, भारतीय माध्यमिकीय सेवा की ग्रेड-IV (जे० टी० ए० १०) अधिकारी को योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में 80000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 3-7-2001 (अपराह्न) से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जुलाई 2001

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा०-I-राष्ट्रपति एतद्-द्वारा श्री के० वी० जगन्नाथ, कर्मचारी कोड सं० 3986, का राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र, जिला केन्द्र, मेडिकेरी कर्नाटक में वैज्ञानिक-बी के पद से त्याग-पत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2000, की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्य-मुक्त किया जाता है। दिनांक 19-10-2000 से 10-12-2000 की अवधि की उनकी अनुपस्थिति की ह्यूटी पर न होना माना जाये।

ध्याम मुखर, उप-निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 जुलाई 2001

सं० ए०-19/जी-ए०/72-आयोग के तारीख 9 अगस्त, 2000 की समसंयुक्त अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में 80000-275-13500/- रु० के वेतन-मान में श्री विवेन्द्र निबारी कम्प्यूटर प्रोग्रामर की प्रतिनियुक्ति को विद्यमान शर्तों पर 29 जून, 2001 से एक वर्ष के लिए (तृतीय वर्ष के लिए) और बढ़ाया जाता है।

जलिन् मोहन, अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2001

सं० ए-38012/4/2000-प्रशा०-4 (वि०का०)-निर्वाचन की आयु होने पर, विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय का अधिवक्ता, ग्रौस रोड, अपर विधि सहायकार दिनांक 31 मई, 2001 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गई है।

बी० अतलकुण्डन, उप सचिव

सं० ए-38012/5/2000-प्रशा०-4 (वि०का०)--निवर्तन की आयु होने पर, विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के श्री एस० बी० शरण, संयुक्त सचिव एवं विधि सहायकार दिनांक 31 मई 2001 के अपराह्न से सरकारी सेवा से विधुत हो गए हैं।

बी० अनंतकृष्णन, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2001

सं० के० 13016/3/2000-यू० एस०-II--भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री रमेश चन्द्र जैन को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख में दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गादाम गुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 2001

सं० 14031/7/2001-यूटीएम--भारतीय प्रशासनिक सेवा (1992-बैच), के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग की समस्या सुधरी संज्ञेय लहाने गंगा का 8 मई 2001 को देहात हो गया।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2001

सं० 1-14020/7/97-ए०डी० (सी०डी०)--राष्ट्रपति, मेजर चन्द्र कांत राय को तारीख 2-7-2001 से अगले आदेशों तक स्थापनापन आधार पर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज, सांगपुर में सहायक निदेशक (सामान्य) के बतौर महयं नियुक्त करते हैं।

के० सी० यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2001

सं० I-21019/6/2001-आईपीएस-III--राष्ट्रपति, श्री एम० के० शुक्ला, आई०पी०एस० (म० प्र० : 1966) को 20 जून 2001 (पूर्वाह्न) में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में निदेशक नियुक्त करते हैं।

बी० के० गुप्ता, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2001

सं० 20/जी/2409-प्रशा०-1 (क)--राष्ट्रपति, श्री एच० आर० सिंह, भा० प्र० मे० (उ० प्र० : 78) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 18 जुलाई, 2001 के पूर्वाह्न में अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

जी० बी० मिह, अवर सचिव

कामिक, लोकर-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय  
(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2001

शुद्धि-पत्र

सं० 14012/14/99-अ० भा० से०-(III)--इम विभाग की दिनांक 01-06-2000 और 18-08-2000 की क्रमशः अधिसूचना एवं शुद्धि पत्र सं० 14012/14/99-अ० भा० से०-(III) के आंशिक संशोधन में उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 2 में दिए गए नाम को श्री "सन्दीप वर्मा" पढ़ा जाए।

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2001

सं० 14012/6/2001-अ० भा० से० (III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अगमूट संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख में भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं०	नाम	वैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री कृष्णमूर्ति	1997	7-9-99
2.	श्री सदीप कुमार	1997	7-9-99
3.	श्री बी० कन्दबेलू	1997	7-7-99

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2001

सं० 13017/42/2000-अ० भा० से० (I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार असम-मेघालय और उत्तरांचल की सरकारों की सहमति से एतद्वारा श्री राजीव चन्द्र जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर०आर० : 94) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तरांचल संवर्ग में तीन वर्ष की अवधि की प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन करती है। यह प्रतिनियुक्ति श्री राजीव चन्द्र जोशी, द्वारा उत्तरांचल सरकार में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु रिपोर्ट किए जाने की तारीख से आरम्भ होगी।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2001

संख्या ए० 32013/1/2001-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री आर० के० गोयल, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (आई०ओ० एफ० एम० : 88) को, दिनांक जुलाई 16, 2001 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, इनमें

से जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि कुमार, निदेशक

संख्या ए० 32013/1/2001-प्रशामन-1--राष्ट्रपति, श्री जगमोहन गुप्ता, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आई० आर० ए० एस० : 87) को दिनांक जुलाई 16, 2001 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आवेग होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

हरि कुमार, निदेशक

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2001

सं० 5/पी एफ/2001--राष्ट्रपति 01 जून, 2001 पूर्वाह्न से श्री हिफजुर रहमान को विदेश मंत्रालय में 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में कनिष्ठ दुभाषिया (अरबी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० के० त्यागी, निदेशक (ए डी पी)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2001

सं० 6/2001 (फा० सं० 27/18/2000-प्रशा०-1 ग)--राष्ट्रपति, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण (सीगैट) में सहायक पंजीयक, श्री ए० मोहन कुमार को, 10,000-15,200/-रुपए के वेतनमान में दिनांक 5 जुलाई, 2001 की पूर्वाह्न से और अगला आवेग होने तक प्रोन्नति के आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए उप पंजीयक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० ए० रहीम, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2001

एफ० सं० 2/12/99-सिक्का-1--इस मंत्रालय की दिनांक 18-7-2000 की सप्तसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, भारत सरकार टकवान, कोलकाता में प्रशासनिक अधिकारी श्री डी० सी० मुखर्जी की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नवर्थ) के पद पर नियुक्ति को 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में 31-01-2002 तक अर्थात् उनके अधिवर्षिता की तारीख तक बढ़ाते हैं।

2. यह नवर्थ नियुक्ति अधिकारी को नियमित नियुक्ति अथवा बरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

आर० के० त्यागी, अवर सचिव

(सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण)

अपील अधिकरण)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 18 जुलाई 2001

सं० XIII/(1)/गोपनीय/99--इस अधिकरण के निजी सचिव को बरिष्ठ निजी सचिव के पद में 11-4-2001 से पुनः परिवर्तित किया गया है।

ए० के० अनिलोत्री, पंजीकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2000

सं० ए-5(1)/2000-ईपीजैड--राष्ट्रपति द्वारा मुख्य, सीमाशुल्क आयुक्त, गुजरात जोन, अहमदाबाद के कार्यालय में उप-सीमाशुल्क आयुक्त श्री डी० पी० मुखोपाध्याय, को 10,000-15,200/- रुपए (समूह "क") के वेतनमान में दिनांक 12-4-2001 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आवेग होने तक प्रतिनियुक्ति आधार पर विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन (केएसईजैड), के कार्यालय गांधीधाम में उप-आयुक्त (सीमाशुल्क) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

सं० ए-5(2)/2000-ईपीजैड--राष्ट्रपति द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली में डैस्क अधिकारी डा० हरमोत सिंह श्रेवाण को 8000-13500/रु० (समूह "क") के वेतनमान में दिनांक 26-3-2001 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आवेग होने तक प्रतिनियुक्ति आधार पर विकास आयुक्त कांडला विशेष आर्थिक जोन (के० एम० ई० जैड०) गांधीधाम में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2001

सं० ए-4 (6)/4/2001-ईपीजैड--राष्ट्रपति द्वारा श्री एम०एस० रवि एस०आई०पी०ओ० को 6500-10500/- रुपए के वेतनमान में निदेशक, पशु उद्योग सेवा संस्थान का कार्यालय त्रिपुर में दिनांक 5-6-2001 (पूर्वाह्न) से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आवेग होने तक प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक विकास आयुक्त (एडीसी), कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोचीन के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनी रत्ना रिजवी, उप सचिव

## रसायन और उर्ध्व रक्त मंत्रालय

## (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2001

सं० ए-19011/4/2001-स्था०—राष्ट्रपति, श्री एम० एन० सिवामुद्रमणियम, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी को रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान से 25 जून 2001 के पूर्वार्द्ध से आर्थिक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2001

सं० ए-19011/11/99-स्थापना—श्री एस० कौशिकरामन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 92) को तत्कालीन राज्य मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (श्री ई० पोन्नुस्वामी) के कार्यालय में निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, राज्य संवर्ग को प्रत्यावर्तन हेतु कार्यालय अनुमोदन के परिणामस्वरूप, 14 मई, 2001 से अपने मूल संवर्ग को प्रत्यावर्तित कर दिए गए।

के० मास्ती, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2001

सं० ए-19011/5/97-स्थापना—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप सचिव, श्री मोहित सिन्हा (भा० रे० ले० मे० : 87) को उनके लिए ब्यवस्थित उपाय के रूप में उनके द्वारा धारित उप सचिव के पद का पुनः पदनामकरण निदेशक के रूप में करते हुए 1-7-2001 (पूर्वार्द्ध) अथवा इस पद का कार्यभार सम्भालने का तारीख, दोनों में जो भी बाद में हो, से 21-7-2002 (पूर्वार्द्ध) तक उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

के० मास्ती, अवर सचिव

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 2001

सं० 3(12)/98-स्थापना/डी-1—इस मंत्रालय की दिनांक 21 जून, 2000 की अधिसूचना सं० 3(12)/98-स्थापना/डी-1 के अनुक्रम में, राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, कोलकाता में क्षेत्रीय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, बेंगलूर श्री एम० एस० रामानुजन, भारतीय डाक सेवा (81) की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 7वें वर्ष के लिए (संबंधित भर्ती नियमावली में निर्धारित अवधि से 3 वर्ष अधिक) दिनांक 29 जून, 2001 से 28 जून, 2002 तक अथवा अगले आदेश तक, जो

भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं। बढ़ाई गई इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के पद का उन्नयन व्यक्तिगत आधार पर उप सचिव स्तर से निदेशक स्तर का 28 जून, 2002 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बना रहेगा।

श्री एम० एस० रामानुजन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात, बेंगलूर बढ़ाई गई इस अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति (कार्य) भस्ते के हकदार नहीं होंगे तथा उनका वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के का० शा० सं० 2/29/91-स्थापना (वेतन-II) के पैरा 8.8 की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

आई० डी० शर्मा, अवर सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2000

फाइल सं० 18/2/2000-ई०ओ०पी० (सी०ओ०पी०)—उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन पूर्ववर्ती शर्करा और खाद्य तेल विभाग द्वारा जारी दिनांक 15 मितम्बर, 2000 की अधिसूचना के अधिक्रमण में राष्ट्रपति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में फिलहाल उप-सचिव के रूप में कार्यरत श्री एम० एस० दुबे तत्काल प्रभाव तथा अगले आदेश होने तक उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में अमृतसर आँयल वर्क्स (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1982 और गणेश फ्लोर मिक्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1984 के अधीन भुगतान आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

बी० के० बल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जनवरी 2001

फाइल सं० ए०-38012/1/2001-एस० आर० ए०—इस विभाग के समूह 'क' सामान्य केन्द्रीय सेवा के डॉक्टर जे० एल० श्रीवास्तव, निदेशक, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 जून 2001 के अवसर्ग में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आर० एल० कपूर, अवर सचिव

## (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2001

सं० ए०-12011/2/2001-स्था०-उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बी० एस० माधुर को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग में 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में 6 जुलाई 2001 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है।

एम० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12011/15/95-स्था०-केन्द्रीय सरकार श्री एस० सी० रावल को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के रजिस्ट्रार के पद पर अपनी प्रतिनियुक्ति की तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले समयपूर्व वापसी की अनुमति प्रदान करती है। श्री एस० सी० रावल को उनके एवजी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने पर 6-7-2001 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के रजिस्ट्रार के पद से कार्यमुक्त किया जाता है ताकि वे टी० डी० एस० ए० टी० में रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार ग्रहण कर सकें।

एम० के० नायक, अवर सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2001

सं० ए-32014/4/95-स्था०-I--राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री बी० के० सहगल को उसी विभाग में 11-7-2001 से 31-8-2001 तक अथवा नियमित पदधारी द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उनको अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

एम० के० नायक, अवर सचिव

शर्करा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2001

सं० ए-38013/1/98-स्थापना--शर्करा निदेशालय, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में कार्यरत श्री बनवारी लाल, निरीक्षण अधिकारी (शर्करा),

31 जुलाई, 2001 के अपराह्न से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

ए० के० श्रीवास्तव, अवर सचिव प्रशासन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 21 मई 2001

सं० ए-32013/1/98-प्रशा० 1(ए)--विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-10500 रु० के वेतनमान में तकनीकी सहायकों को उसी वेतनमान में कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में पुनर्नामित करने सम्बन्धी इस विभाग की दिनांक 15-2-2001 की अधिसूचना सं० ए-32013/1/98-प्रशा०-1(ए) तथा उस आणय से सम्बन्धित अधिसूचना सं० ए-32013/1/98-प्रशा०-1(ए) दिनांक 26-2-2001 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं० ए-32016/1/93-प्रशा० 1(बी), दिनांक 16-5-2000 एवं 23-11-2000 के तहत निम्नलिखित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की तकनीकी सहायकों के रूप में तदर्थ पदोन्नति को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इस तदर्थ पदोन्नति को कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में उनके नाम के सामने दिखाई गई अवधि के लिए पुनर्नामित किया जाता है:—

क्रम सं०	नाम	तदर्थ पदोन्नति की अवधि (कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में पुनर्नामित)
1.	श्री रवीन्द्र	16-05-2000 15-05-2001
2.	श्री एम०के० बोधरी	16-05-2000 15-05-2001

2. दिनांक 16-05-2000 तथा 23-11-2000 के आदेश सं० ए-32016/1/93-प्रशा० 1(बी) की अवधि पूर्ण एवं निवृत्त होने पर उसी प्रकार रहेंगे।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 23 मई 2001

सं० ए-11013/01/2001-प्रशा० 1 (ए)--राष्ट्रपति, श्री विपिन दीक्षित की 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में 11 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के निजी स्टाफ में सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री विपिन दीक्षित की नियुक्ति माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यकाल के साथ सहायसानी अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जब तक रखना चाहें, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

3. वे अपना वेतन इत्यादि अपने सम्बद्ध ग्रेड में अपने हकदारी के आधार पर सामान्य नियमों के तहत प्राप्त करते रहेंगे।

विजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 जून 2001

सं० ए-01/14/2001-प्रशा० 1(ए)--राष्ट्रपति, निम्न-लिखित वैज्ञानिक "सी" को तर्तीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर, 12,000-375-16500 रुपये के वेतनमान में 1 जनवरी, 2001 के पूर्वार्द्ध से तथा अगले आदेशों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "डी" के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

1. श्री जे० के० पाठक
2. श्री के० के० सिंह
3. श्री बी० एम० प्रसाद

विजय कुमार, अवर सचिव

सं० ए-01/14/2001-प्रशा० 1(ए)--राष्ट्रपति, निम्न-लिखित वैज्ञानिक "डी" को तर्तीय पूरक योजना के अंतर्गत उनकी स्वस्थाने पदोन्नति पर, 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में 1 जनवरी 2001 के पूर्वार्द्ध से तथा अगले आदेशों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "एफ" के पद पर नियुक्त करते हैं :—

1. श्री आर० के तयाल
2. डा० बी० के० शुक्ला
3. डा० बी० पी० सिंह
4. श्री एल० हरेन्दू प्रकाश

विजय कुमार, अवर सचिव

सं० ए-32013/1/98-प्रशा० 1(ए)--राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निम्नलिखित कनिष्ठ विश्लेषकों को 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में, उनके नामों के आगे दी गई तिथियों से तथा अगले आदेशों तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उनकी पदोन्नति होने पर वैज्ञानिक "बी" के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नाम	पदोन्नति की प्रभावी तिथि
1. श्री डी० टी० वेगाडल	16-05-2001
2. श्री प्रणान्त माली	04-06-2001

दिनांक 19 जून 2001

सं० ए-12023/1/97-प्रशा० 1 (ए)--इस विभाग के दिनांक 03-04-2001 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम, श्रीमती बी० पी० मावरा, सहायक की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में अनु-भाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अवधि को तत्काल प्रभाव में समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति दी जाती है। उन्हें उनके सहायक के नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

विजय कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अप्रैल 2001

सं० ए 19011/1/2001-आई ए एम--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग, 1984 बैच के अधिकारी श्री आर० के० महतोल्या को दिनांक 17-11-2000 अपराह्न से अगले आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में वन संरक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० पी० हलदर, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2001

सं० ए 19011/04/97-भा० व० से०-I--केन्द्र में प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व ही वापसी के कारण श्री जे० एन० मक्सेना, भा० व० से० (एम एच : 71) प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर की सेवाएं 15-5-2001 अपराह्न से महाराष्ट्र राज्य सरकार को वापिस सौंपी जाती है।

जी० पी० हलदर, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2001

सं० ए-19011/7/94-भा० व० से०-II--केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में संयुक्त निदेशक श्री बी० एन० पांडे, भारतीय वन सेवा (एम पी: 82) की सेवाएं 31-5-2001 अपराह्न से मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वापिस सौंपी जाती हैं।

जी० पी० हलदर, अवर सचिव

सं० ए-19011/9/94-भा० व० से०-I--केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रोफेसर श्रीमती गोपा पांडे, भारतीय वन सेवा (एम पी: 82) की सेवाएं 31-5-2001 अपराह्न से मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वापिस सौंपी जाती हैं।

जी० पी० हलदर, अवर सचिव

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2001

सं० 17013/21/2000-भा० व० से०-2--दिनांक 5 जनवरी 2001 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा 1 के नीचे तालिका में क्रम संख्या 1 के सम्मुख अधिकारी के नाम को श्री एम० डी० डोले के स्थान पर एम० एम० डोले पढ़ा जाए।

रबीश साहेबबाण, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2001

सं० 17013/12/2000 भा० व से-2-भारतीय वन सेवा (परिचीक्षा) नियमावली, 1966 के विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, त्रिपुरा राज्य वन सेवा के श्री प्रणव कुमार दा। (जन्मतिथि : 28-12-1966) को तत्काल प्रभाव से 'भारतीय वन सेवा की मौजूबा रिक्ति पर नियुक्त करने हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा में पदोन्नति प्राप्त संयुक्त संवर्ग अर्जित करते हैं।

रवीश मानेहवाल, अवर सचिव,

दिनांक 13 जून 2001

सं० 18013/21/95-भा व से-2-भारतीय वन सेवा (परिचीक्षा) नियमावली, 1966 के नियम 4 द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल संवर्ग के निम्नलिखित पदोन्नत अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय वन सेवा में स्थायी करती है।

क्र० सं०	नाम	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री आर० बी० बट्टोपाध्याय	1-6-1990
2.	श्री पी० के० बसु	1-6-1990

रवीश मानेहवाल, अवर सचिव

दिनांक 13 जून 2001

सं० 17013/12/2000-भा व से-2-भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली 1966 के विनियम 7 के उपविनियम (3) में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने 12 जून, 2001 को एक चयन सूची को स्वीकृत किया है जिसमें मणिपुर राज्य वन सेवा के श्री थ० मोहिन्द्र प्रताप मिह का नाम शामिल है। इस चयन सूची को मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग में पदोन्नत रिक्ति को भरने हेतु नई दिल्ली से 20 दिसम्बर 2000 को आयोजित अपनी बैठक में चयन समिति द्वारा संघार किया गया था।

रवीश मानेहवाल, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2001

सं० ए०-12025/137/97-सी एच एम-1-राष्ट्रपति, मध लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० श्याम गोपाल नाग को 18-3-98 के पूर्वाह्न में आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के निमित्त अधिकार क्षेत्र में 8000-275-

13,500 रुपये के वेतनमान से अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० श्याम गोपाल नाग को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन निमित्त अधिकारी के पद पर नौनाम किया जाना है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2001

सं० ए० 38013/6/2000-प्र०-1-सेवा निवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री सुधाकर मिश्रा, महायक-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिनांक 30-4-2001 के अपराह्न में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

के० के० मित्तल, निदेशक प्रशासन (मुख्यालय)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2001

सं० 12022/20/99-स्था-1-कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जून, 2001 के कार्यालय आपन सं० 5/2/2001 सी०एस-II जिसके तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के श्री एस० चन्द्रशेखरन, (नजी सचिव को कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग में 31-1-2001 (पूर्वाह्न) से पुनः नामित किया गया है, का अनुसरण करते हुए और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से उनके 31-1-2001 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के के०स०आ०से० संवर्ग के वैयक्तिक महायक श्री एस० चन्द्रशेखरन को कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग में 31-1-2001 पूर्वाह्न से निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० एस० सही, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 18 जून 2001

सं० 13015/4/98-एम०सी०डी०-6-राष्ट्रपति, श्री जी० एन०जे० आनन्द, आई०एफ०एस० (एम०टी०-86) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से निदेशक (मम्ह, 'क', राजपत्रित अनुसूचिकीय) के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर 31-4-2001 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

दिलीप मिह, निदेशक

संसार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 जुलाई 2001

सं० 41-10/98-प्रशासन-1-राष्ट्रपति, इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1999 के एक अर्हता प्राप्त उम्मीदवार श्री टी० श्रीनिवास राव (रोल न० 31467 रैंक न० 003) को



8000-275-13500/- रुपये के वेतनमान में 16 मई, 2001 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक, दूरसंचार विभाग के क्षेत्रीय आयोजित एवं समन्वय मध्य/अनुश्रवण संगठन में अस्थाई तौर पर इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह दिनांक 24 मई, 2001 की समसम्यक अधिसूचना तथा दिनांक 15 जून, 2001 के शुद्धि पत्र की अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है।

एन० मुखर्जी, सहायक महानिदेशक (प्रशासन-1 एवं)

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 2001

स० एफ 7-5/94 सा एच-1/एन-1—इस विभाग की दिनांक 10-12-1998 की समसम्यक अधिसूचना के क्रम में इस विभाग में आयोजित किए जाने पर राष्ट्रपति डा० आर० आर० एम० चौहान को 29-05-2001 में नियमित आधार पर महायक निदेशक (प्रदर्शना प्रकोष्ठ) नियुक्त करते हैं।

एम० मुन्बारागण, अवर सचिव

गृह परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2001

स० ए-12025/2/2000-स्था०-II—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के श्री कुजी लाल मीणा को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में तारीख 5-7-2001 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक सहायक कार्यकारी अभियंता के वेतनमान रु० 8000-275-13500/- में नियुक्त करते हैं।

पी० एम० राणा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बार्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2001

स० ई (ओ) 111-2001/आर एन/08—श्री आर० के० बघवा बरिष्ठ वेतनमान/भा० रेल० यांत्रिक इंजि० सेवा ने राष्ट्रपति के अपने स्थाई समाह्वन के परिणामस्वरूप 17-4-2001 (अपराह्न) से रेल सेवा से न्यायपत्र दे दिया है।

आर० के० निह

रेलवे बार्ड

एवं पदेन अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2001

स० एन० एच०-21012/1/200 एम एन—राष्ट्रपति, श्री को० भट्टाचार्य, वैज्ञानिक सहायक को ओ० ए० स० 1180/2000 में केट (म० ए० टा) कलकत्ता बेंच 2-172 G1 2001

के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन 16 मई 2001 से पूर्वार्द्ध से अगले आदेशों तक दीपघर और दीपपोत विभाग में अनुसंधान अधिकारी (8000-13500/- रु०) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

मुष्नी राम, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2001

स० पी० एफ०/895 भा० गृ० ने०—भारतीय सूचना सेवा समूह (न०) के बरिष्ठ ग्रेड अधिकारी श्री अमर नाथ कोकरिया अधि-वर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 31 मई, 2001 को अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

2. श्री कोकरिया ने जन सम्पर्क निदेशालय, (रक्षा) जम्मू में जन सम्पर्क अधिकारी के पद से उसी दिन से कार्यभार त्याग दिया है।

अशाक कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2001

स० 3/14/2000-प्रशा०-दो—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री ए० के० गुहा का नाम वर्ष 1999-2000 की अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 20-6-2001 की पूर्वाह्न से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें इसी तारीख से प्रसार भारती (दूरदर्शन महानिदेशालय) में गृह मंत्रालय में स्थानान्तरित श्री एस० देववने, उपनिदेशक, प्रशासन, प्रसार भारती (दूरदर्शन महानिदेशालय) के स्थान पर पद-स्थापित किया जाता है।

एच० जी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 2 जुलाई 2001

स० 8/2/2001-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, सच लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 1999 के परिणामों के आधार पर कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के के० स० आ० से० संवर्ग के वैयक्तिक सहायक श्री बी० एम० आर० मूर्ति को इस मंत्रालय में नामित किए जाने पर उन्हें 29 जून, 2001 (पूर्वाह्न) से 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में इस मंत्रालय के के० स० आ० से० संवर्ग के निजी सचिव (ग्रेड 'क' तथा 'ख' सम्मिलित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. वे अपनी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षण पर रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

3. श्री बी० एस० आर० मूर्ति को विनिर्देश विभाग बनाम नं० 14, सी० जी० आर० काम्प्लेक्स, लोको रोड, नई दिल्ली में इसी पद पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के निर्देशों के साथ 29 जून, 2001 में इस मंत्रालय के को० स० आ० से० संदेश में भी कार्यमुक्त किया जाता है।

एच० जी० उप्रेती, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2001

सं० 5/3/2001-प्रशा०-दो-कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14-5-2001 के का० आ० सं० 11/3/2001-एफ ओ/एस एन-1 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री बी० मुहंमद, आई० आई० एम० (91) को 4-7-2001 के पूर्वोक्त से मुक्तता और प्रमाण मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष के लिए 12000-375-16500/- रु० के वेतनमान में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच० जी० उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2001

सं० 1/2(9)/2000-एफ(एस)-राष्ट्रपति, मन्त्रालय आयोग की सिफारिश पर सुश्री प्रेमलता मलिक, प्रशासनिक अधिकारी को मान एवं नाउक प्रमाण नई दिल्ली में सहायक निदेशक (प्रशा०), सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' (राज-पत्रिका) के पद पर 8000-13,500/- रु० के वेतनमान में 16-2-2001 (पूर्वोक्त) से पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

पी० के० बलजी, डेप्टी अधिकारी

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2001

सं० ए-19011/6/2000-प्रशा०-1-राष्ट्रपति वर्तमान में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्रीमती निशा सिंह, भा० प्र० से०, (हि० प्र० 87), को उनके द्वारा धारित वर्तमान पद का निदेशक के रूप में उनके लिए वैयक्तिक उन्नयन कर दिनांक 1-7-2001 (पूर्व०) से उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 16-2-2005 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के

मंत्रालय में 15,100-400-18,300/- रु० के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी० के० पालीवाल, अवर सचिव

सं० ए-22012/1/2001-प्रशा०-1-राष्ट्रपति श्री बी० का० मिह्रा आई० आर० एम० आई० ई० (84) को दिनांक 28-06-2001 (पूर्व०) से 5 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय कार्यकाल प्रतिनियुक्ति अवधि पर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में 14,300-18,300/- रु० के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 28-06-2001 (पूर्व०) से अगले आदेशों तक उनकी वैयक्तिक मुद्रण निदेशालय में श्री जयेश कुमार के स्थान पर संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के रूप में कर जाता है।

3. शहरी निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशा०) के पद (उप सचिव के स्तर का) का दिनांक 28-06-2001 (पूर्व०) से श्री बी० बी० मिह्रा के लिए निदेशक के रूप में वैयक्तिक उन्नयन किया जाता है।

डी० के० पालीवाल, अवर सचिव

सं० ए-22012/1/2001-प्रशा०-1-राष्ट्रपति महा-निदेशालय (निर्माण), के० ला० नि० वि० में प्रशासन निदेशक (उप सचिव के स्तर का पद) के पद पर कार्यरत श्री ए० एम० रेड्डी, आई० आर० एम० आई० एम० (87), उप-सचिव, का उनके द्वारा धारित पद का निदेशक के रूप में उनके लिए वैयक्तिक उन्नयन कर दिनांक 01-07-2001 या 27-05-2006 तक की तारीख से लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 14,300-400-18,300/- रु० के वेतनमान में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी० के० पालीवाल, अवर सचिव

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2001

सं० के-11011/36/99-डीडी 1ए-राष्ट्रपति द्वारा श्री ए० एम० शरण, आई० आर० एम० (हृदियाणा 90) को दिल्ली विकास प्राधिकरण में उनके द्वारा पद भार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उप सचिव स्तर के आयुक्त (भूमि निपटान) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बी० के० मिश्रा, अवर सचिव

**CABINET SECRETARIAT****(NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT)**

New Delhi-110066, the 9th July 2001

No. A-19013/2/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri L. A. Subramanian, CSS, as Deputy Secretary in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in the National Security Council Secretariat, Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 3rd July, 2001 until further orders.

V. CHANDRASEKHARAN, Under Secy.

**PLANNING COMMISSION**

New Delhi, the 26th June 2001

No. F. 6 (1537)/92-Admn.I.—Consequent on his promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Ministry of Health, Shri K. V. Krishnan, Director, Planning Commission is relieved of his duties w.e.f. 26th June, 2001 (A/N) to join the Ministry of Health.

T. R. MEENA, Dy. Secy.

New Delhi, the 22nd June 2001

No. F. 6(1416)/90-Admn.I.—Consequent on his promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Ministry of Environment & Forests, Shri K. K. Narang, Director, Planning Commission is relieved of his duties with effect from 22nd June, 2001 (A/N) to join the Ministry of Environment & Forests.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. F.6 (1572)/93 Admn.I.—Consequent on his promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Department of Chemicals & Petrochemicals, Shri M. N. Siva subramanian, Director, Planning Commission is relieved of his duties with effect from 25th June, 2001 (F/N) to join the Department of Chemicals and Petrochemicals.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. F.6 (1811)/2000-Admn.I.—Consequent on her promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Ministry of Steel, Dr. (Ms) S. Rohini, Director, Planning Commission is relieved of her duties with effect from 25th June, 2001 (F/N) to join the Ministry of Steel.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 2nd July 2001

No. F.6(1716)/97-Admn.I.—Consequent on his promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Ministry of Textiles, Shri D. K. Mukhopadhyay, Director, Planning Commission is relieved of his duties with effect from 2nd July, 2001 (A/N) to join the Ministry of Textiles.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 3rd July 2001

No. F.6(1741)/98-Admn.I.—Consequent on his selection for appointment as Director, Independent Evaluation Office, IMF, Washington (C), Shri Montek Singh Ahluwalia has relinquished charge of the Office of Member, Planning Commission w.e.f. 3rd July 2001 (A/N).

2. Shri Ahluwalia has been sanctioned Earned Leave for 3 days from 4th to 6th July, 2001 with permission to suffix 7th and 8th July, 2001. Accordingly, Planning Commission will pay him salary upto and including 8th July, 2000.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 10th July 2001

No. F.6(1413)/90-Admn.I.—Consequent on his promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Department of Industrial Policy and Promotion, Shri D. Ananth Director, Planning Commission is relieved of his duties with effect from 11th July, 2001 (A/N) to join the Department of Industrial Policy & Promotion.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-43014/4/2000-Adm.II.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Order No. 12015/3/2001-ISS dated 26th June, 2001 the President is pleased to appoint Ms. Santosh, Grade IV (JTS) officer of ISS as Research Officer in the Planning Commission in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 3-7-2001 (A/N) and until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

**MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY****NATIONAL INFORMATICS CENTRE**

New Delhi-110003, the 11th July 2001

No. A-39013/1/2000-Adm. I.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. K. V. Jagannath, Enp. Code No. 3986, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, District Centre, Medikeri, Karnataka, with effect from the afternoon of 10th December 2000 and he is relieved of his duties from the same day. The period of his absence from 19-10-2000 to 10-12-2000 is treated as the period not spent on duty.

SHYAM SUNDER Dy. Director

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

New Delhi-110001, the 6th July 2001

No. A-19/G-A/72/9623.—In continuation of the Commission's Notification of even No., dated 9th August, 2000, the tenure of deputation of Shri Birendra Tiwari Computer Programmer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in the Secretariat of the Election Commission of India is extended for a further period of one year w.e.f. 29-6-2001 (for the 3rd year), on the existing terms and conditions.

By Order

LALIT MOHAN, Under Secy.

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS****(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

New Delhi, the 31st May 2001

No. A-38012/4/2000-Adm.IV(LA).—On attaining the age of superannuation, Smt. Shail Goel, Additional Legal Adviser in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice and Company Affairs stands retired from Government service w.e.f. the afternoon of the 31st May, 2001.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

No. A-38012/5/2000-Adm.IV(LA).—On attaining the age of superannuation, Shri S. B. Sharan, Joint Secretary & Legal Adviser in the Deptt of Legal Affairs, Ministry of Law, Justice & Company Affairs, stands retired from Govt. service w.e.f. the afternoon of the 31st May, 2001.

V. ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy.

## (DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi, the 19th July 2001

No. K. 13016/3/2000-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Ramesh Chand Jais to be Additional Judge of the Delhi High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the July 2001

No. 14031/7 2001/UIS.—Ms. Sungay Lhaden Shenga, a member of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre of Indian Administrative Service (1992 Batch), expired on 8th May, 2001.

K. K. KAIRA, Under Secy.

New Delhi, the 17th July 2001

No. I-14020/7/97 Ad(CD).—The President is pleased to appoint Major Chandra Kant Roy as Assistant Director (General) in the National Civil Defence College, Nagpur on officiating basis with effect from 2-7-2001, until further orders.

K. C. YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 18th July 2001

No. I-21019/6/2001-IPS III.—The President is pleased to appoint Shri M. K. Shukla, IPS (MP : 66) as Director, Sarad Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of 20th June, 2001.

V. K. GUPTA, Desk Officer

New Delhi, the 20th July 2001

No. 20/G/2409-Ad.I(A).—The President is pleased to appoint Shri H. R. Singh, IAS (UP : 78) as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 18th July, 2001, until further orders.

G. B. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS  
(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th July 2001

## CORRIGENDUM

No. 14012/14/99-AIS.III.—In partial modification of this Department's Notification and Corrigendum number 14012/14/99-AIS.III dated 1-6-2000 and 18-8-2000 respectively the name given at S. No. 2 of the Notification may be read as Shri 'Sandeep Verma'.

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

The 19th July 2001

No. 14012/6/2001-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Joint Cadre of AGMUT with effect from the dates shown against them :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation  
S/Sh.

1. P. Krishnamurthy, 1997—7-9-99
2. Sandeep Kumar, 1997—7-9-99
3. V. Chandavlu, 1997—7-9-99.

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2001

No. 13017/42/2000-AIS(I).—Under Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Assam-Meghalaya and Uttaranchal the Central Govt. hereby accords approval for deputation of Shri Rajeev Chandra Joshi, IAS (RR : 94) from the IAS Cadre of Assam-Meghalaya to the IAS Cadre of Uttaranchal for a period of three years with effect from the date of his reporting for duty to the Government of Uttaranchal.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 18th July 2001

No. A.32013/1/2001-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Goel, IOFS (88), as Deputy Secretary in the Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 16th July, 2001 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

HARI KUMAR, Director

No. A. 32013/1/2001-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Jagmohan Gupta, IRAS (87), as Director in the Department of Personnel and Training with effect from the afternoon of 16th July, 2001 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

HARI KUMAR, Director

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st June 2001

No. 5/PF/2001.—The President is pleased to appoint Shri Hitzur Rahman as Junior Interpreter (Arabic) in the Ministry of External Affairs in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from the forenoon of 1st June, 2001.

R. K. TYAGI, Director (ADP)

## MINISTRY OF FINANCE

## (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 18th July 2001

No. 6/2001.(F.No. 27/18/2000-Ad. IC).—The President is pleased to appoint Shri A. Mohan Kumar, Assistant Registrar in the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (CEGAT) to officiate on promotion as Deputy Registrar in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/—, with effect from the forenoon of 5th July, 2001 (forenoon) until further orders.

S. A. RAHIM, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th July 2001

F. No. 2/12/99-COIN.I.—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 18/7/2000, the President is pleased to extend the appointment of Sh. D. C. Mukherjee, Administrative Officer, India Government Mint, Kolkata as Chief Administrative Officer (Ad-hoc) in the pay scale of Rs. 10000-15200, upto 31-01-2002, i.e. the date of his superannuation.

2. The ad-hoc appointment will not confer on the officer any right for regular appointment or seniority.

R. K. MAGGO, Under Secy.

## CUSTOMS EXCISE &amp; GOLD (CONTROL)

## (APPELLATE TRIBUNAL)

New Delhi-110066, the 18th July 2001

F. No. XIII/(1)/Conf./99.—The post held by Private Secretaries in the Tribunal are re-designated as Senior Private Secretary w.e.f. 11-4-2001.

A. K. AGNIHOTRI, Registrar

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 21st June 2001

No. A-5(1)/2000-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri D. P. Mukhopadhyay, Deputy Commissioner of Customs, Office of the Chief Commissioner of Customs, Gujarat Zone, Ahmedabad, as Dy. Commissioner (Customs) in the Office of the Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone (KSEZ), Gandhidham, in the pay scale of Rs. 10000-15200/- (Group 'A'), on deputation basis, for a period of 3 years, with effect from 12-4-2001 or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

No. A-5(2)/2000-EPZ.—The President is pleased to appoint Dr. Harmeet Singh Grewal, Desk Officer, Ministry of Surface Transport, New Delhi, as Administrative Officer, in the Office of the Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone (KSEZ), Gandhidham, in the pay scale of Rs. 8000-13500 (Group 'A'), on deputation basis, for a period of 3 years, with effect from 26-3-2001 or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

New Delhi, the 21st June 2001

No. A-4(6)/4/2001-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Ravi SIPO, O/o the Director, Small Industries Services Institute, Thrissur, as Assistant Development Commissioner (ADC), Cochin Special Economic Zone, Cochin, in the pay scale of Rs. 6500-10,500/- on deputation basis for a period of 3 years, w.e.f. 5-6-2001 (forenoon) or until further orders.

ALI RAZA RIZVI, Dy. Secy.

## MINISTRY OF CHEMICALS &amp; FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS &amp; PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 10th July 2001

No. A-19011/4/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri M. N. Sivasubramaniam, an officer of the Indian Economic Service as Economic Adviser in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- in the Department of Chemicals & Petrochemicals with effect from the forenoon of 25th June, 2001.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; NATURAL GAS

New Delhi, the 2nd July 2001

No. A-19011/11/99-Estt.—Consequent upon the ex-post-facto approval for repatriation to the state cadre, Shri S. Kosalaraman, IAS (TN : 92) who was working as Private Secretary in the office of the then Minister of State for Petroleum & Natural Gas (Shri E. Ponnuswamy) reverted to his parent cadre w.e.f. 14-05-2001.

K. MAJHI, Under Secy.

The 11th July 2001

No. A-19011/5, 97-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Mohit Sinha, (IRAS : 87), Deputy Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas as Director in the same Ministry by re-designating the post of Deputy Secretary held by him to that of Director as a measure personal to him with effect from 1-7-2001 (F/N) or from the date

of taking over the charge of the post, whichever event takes place later, for the remaining period of his tenure upto 21-7-2002 (F/N) or until further orders whichever event takes place earlier.

K. MAJHI, Under Secy.

## MINISTRY OF STEEL

(S. D. WING)

New Delhi, the 28th June 2001

No. 3(12)/98-Estt./DI.—In continuation of this Ministry's Notification No. 2(12)/98-Estt./DI. dated 21-6-2000, the President is pleased to extend the deputation period of Shri M. S. Ramanujan, IPoS (81), Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Chennai, in the Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata under the Ministry of Steel for the 7th year (3rd year in excess of the period prescribed in the relevant Recruitment Rules) w.e.f. 29-6-2001 to 28-6-2002 or until further orders, whichever is earlier. During this extended period, the post of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel shall remain upgraded from the Dy. Secretary level to the Director level upto 28-6-2002 or until further orders, whichever is earlier on personal basis.

Shri M. S. Ramanujan, Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Chennai would not be entitled to draw deputation (duty) allowance during this extended period and his pay would be regulated in terms of Para 8.8 of the Department of Personnel & Training O.M. No. 2/29 91-Estt. (Pay. II) dated 5-1-94.

I. D. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD &amp; PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 6th December 2000

F No. 18/2/2000-EOP (COP).—In supersession of the Notification dated 15th September, 1997 issued by the erstwhile Department of Sugar & Edible Oils under the Ministry of Food & Consumer Affairs, the President is pleased to decide that Shri S. S. Dubey, presently working as Deputy Secretary in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) will hold additional charge of the post of Commissioner of Payments under the Amritsar Oil Works (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1982 and Ganesh Flour Mills Co. Ltd. (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984, in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Food & Public Distribution) with immediate effect and until further orders.

B. K. BAL, It. Secy.

New Delhi, the 29th June 2001

File No. A-38012/1/2001-SRA.—On attaining the age of superannuation, Dr. J. L. Srivastava, Director, Indian Grain Storage Management and Research Institute, Hapur, Group 'A' General Central Service of this Department will stand retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 30th June, 2001.

R. L. KAPOOR, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 16th July 2001

No. A-12011/2/2001-Estt.—In exercise of the powers conferred by Rule 9 of the Consumer Protection Rules, 1987, the Central Government hereby appoints Shri B. S. Mathur, Officer of the Delhi Higher Judicial Service, as Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC), in the pay scale of Rs. 18400-500-22400 on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 6th July, 2001.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-112011/15 95-Estt.—The Central Government is pleased to allow the premature repatriation of Shri S. C. Rawal from the post of Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) before the completion of his deputation period of three years. On the joining of his substitute Shri S. C. Rawal hereby stands relieved from the post of Registrar, NCDRC w.e.f. 6/7/2001 (forenoon) to enable him to join as Registrar in the TDSAT.

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 17th July 2001

No. A-32014/4/95-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Saigal, a regular Assistant of the CSS Cadre of the Department of Consumer Affairs as Section Officer on purely adhoc basis in the same Department with effect from 11/7/2001 to 31/8/2001 or till the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. This adhoc appointment does not confer on him any right or claim for regular appointment or seniority in the grade of Section Officer.

S. K. NAYAK, Under Secy.

#### DIRECTORATE OF SUGAR

New Delhi, the 6th July 2001

No. A-38013/1/98-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Banwari Lal, IO(S), working in the Directorate of Sugar, Ministry of Consumer Affairs, Food and P. I., will stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2001.

A. K. SRIVASTAVA, Under Secy.

#### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 21st May 2001

No. A. 32011/01/2001-Admn. I (A).—In pursuance of this Department's notification number A. 32013/1/98-Admn. I (A) dated 15-02-2001 regarding re-designation of Technical Assistants in the Scale of pay of Rs. 6500—10500/- in the Department of Science & Technology as Junior Analysts in the same scale and subsequent notification No. 32013/1/98-Admn. I (A) dated 26-02-2001 to that effect, ad-hoc promotion of the following Junior Technical Assistants to the post of Technical Assistants vide this Department's orders No. A. 32016/1/93-Admn. I (B) dated 16-05-2000 and 23-11-2000 are re-designated as ad-hoc promotion as Junior Analysts with the approval of Competent Authority for the period as shown against each :

Sl. No., Name and Period of ad-hoc promotion (Re-designated as Junior Analyst)

1. Sh. Ravinder—16-05-2000—15-05-2001
2. Sh. S. K. Choudhary—16-05-2000—15-05-2001

2. The other terms and conditions of the orders No. A. 32013/1/93-Admn. I (B) dated 16-05-2000 and 23-11-2000 remain same.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 23rd May 2001

No. A. 11013/01/2001-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint Shri Vipin Dixit as Asstt. Private Secretary in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the personal staff of Hon'ble Minister for Science and Technology with effect from the forenoon of 11th January, 2001.

2. The appointment of Shri Vipin Dixit will be co-terminous with the term of Hon'ble Minister for Science & Technology or as long as desired by the Minister (S&T), whichever is earlier.

3. He will draw his pay etc. in his respective grade as per his entitlement under normal rules.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 7th June 2001

No. A. 01/14/2001-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint the following Scientist 'C' as Scientist 'D' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st January, 2001 and until further orders.

1. Shri J. K. Pathak
2. Shri K. K. Singh
3. Shri V. S. Prasad

VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. A. 01/14/2001-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint the following Scientist 'D' as Scientist 'E' on their in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000 in the Department of Science and Technology with effect from the forenoon of 1st January, 2001 and until further orders.

1. Shri R. K. Tyal
2. Dr. B. K. Shukla
3. Dr. B. P. Singh
4. Shri L. Harendu Prakash

VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. A. 32013/1/98-Admn. I (A).—The President is pleased to appoint under mentioned Junior Analysts in the Department of Science and Technology to officiate on promotion as Scientist 'B' in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in the Department of Science and Technology for the period mentioned against them names and until further orders :—

Name and Effective date of re-designation

1. Shri D. T. Vengayil—16-05-2001
2. Shri Prasanta Mali—04-06-2001

VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 19th June 2001

No. A. 12023/1/97-Admn. I (A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 03-04-2001, sanction of the President is accorded to discontinue the term of ad-hoc appointment of Smt. V. P. Madra, Assistant as Section Officer in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with immediate effect. She is reverted to her regular post of Assistant.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 19th April 2001

No. A-19011/1/2001-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Mahtolia, an officer belonging to the 1984 batch of West Bengal cadre of the Indian Forest Service, to the post of Conservator of Forests, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun under the Ministry of Environment and Forests with effect from the afternoon of 17-11-2000 until further orders.

G. P. HAJDAR, Under Secy.

The 9th May 2001

No. A-19011/04/97-IFS-I.—On premature repatriation from his central deputation tenure, the services of Shri I. N. Saxena, IFS (MH : 71), Chief Conservator of Forests (Central) Regional Office, Bangalore are placed back at the disposal of the State Government of Maharashtra with effect from the afternoon of 15-05-2001.

G. P. HAJDAR, Under Secy.

The 3rd July 2001

No. A-19011/7/94-IFS-I.—On completion of his tenure of deputation with the Central Government, the services of Shri V. N. Pandey, IFS (MP : 82), Joint Director, Forest Survey of India, Dehradun under Ministry of Environment and Forests, are placed back at the disposal of the State Government of Madhya Pradesh with effect from the afternoon of 31-5-2001.

G. P. HALDAR, Under Secy.

No. A-19011/9/94-IFS-I.—On completion of her tenure of deputation with the Central Government, the services of Smt. Gopa Pandey, IFS (MP : 82), Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun under Ministry of Environment and Forests, are placed back at the disposal of the State Government of Madhya Pradesh with effect from the afternoon of 31-5-2001.

G. P. HALDAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 30th May 2001

## CORRIGENDUM

No. 7013-11/2000-IFS-II.—The name of officer appearing against S. No. 1 in table below para 1 of the notification of even number dated the 5th January, 2001 as Shri S. D. Dole be read as Shri S. S. Dole.

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 1st June 2001

No. 7013-12/2000-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect Shri Pranab Kumar Das (Date of Birth : 28-12-1956) of the State Forest Service of Tripura to the Indian Forest Service against the existing vacancy and to allocate him to the Manipur-Tripura Joint Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 13th June 2001

No. 18013/21/95-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the following promotee officers, borne on the West Bengal cadre, in the Indian Forest Service with effect from the dates indicated against their names, viz. :

Sl. No., Name &amp; Date of Confirmation

1. Shri R. K. Chattopadhyay—01-06-1990
2. Shri P. K. Basu—01-06-1990

R. SANEHWAL, Under Secy.

The 15th June 2001

No. 17013/12/2000-IFS-II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7\* of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission on 12th June, 2001 has approved the Select List, containing the name of Shri Th. Mohendra Pratap Singh, a State Forest Service Officer of Manipur, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 20th December, 2000 at New Delhi for filling up one promotion vacancy in the Manipur-Tripura Joint Cadre of the Indian Forest Service.

R. SANEHWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 13th July 2001

No. A-12025/137/97-CHS-I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shyam Gopal Nag to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 18-03-1998 until further orders. Dr. Shyam Gopal Nag is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 24th May 2001

No. A-38013/6/2000-Admn.I.—Shri Suchika Mishra, Asstt. Director retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 30-04-2001.

K. K. MITTAL, Dir. Admn. (Hq.)

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 20th June 2001

No. 12022/20/99-E.I.—In pursuance to Department of Personnel and Training's Office Memorandum No 5/2/2001-CS II dated the 18th June, 2001 re-nominating Shri S. Chandrasekharan, Private Secretary from Ministry of Information & Broadcasting to the Cadre of the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. 31-1-2001 (FN) and consequent upon his relieve from the Ministry of Information & Broadcasting w.e.f. 31-1-2001 (FN), the President is pleased to appoint Shri S. Chandrasekharan Personal Assistant of (SSS Cadre of the Ministry of Human Resource Development) as Private Secretary in the Cadre of the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. 31-1-2001 (FN).

B. M. SADDI, Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 18th June 2001

No. 13015/4/98-SCD-VI.—The President is pleased to appoint Shri D. N. J. Anand, IFS (MT : 86) as Director in the National Commission for SCs and STs (Group 'A' Gazetted Non-Ministrial) on deputation basis with effect from 30-4-2001 (FN).

DIP SINGH, Dir.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 17th July 2001

No. 41-10/98-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri T. Srinivasa Rao (Roll No. 31467, Rank No. 003) a qualified candidate from Engineering Services Examination, 1999, to the post of Engineer in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 in the Wireless Planning & Coordination Wing, Monitoring Organisation, Department of Telecommunications in a temporary capacity, with effect from the forenoon of 16th May, 2001, and until further orders.

2. This issues in supersession of Notification of even number dated 24-05-2001 and Corrigendum dated 15-06-2001.

N. MUKHERJEE, Asstt. Dir. Genl. (Admn. I-B)

## MINISTRY OF TOURISM &amp; CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 14th June 2001

No. F. 7-5/94-CH.I/M.I.—Further to this Department's Notification of even number dated 10-12-1998 the President is pleased to appoint Dr. R. R. S. Chauhan to officiate as Assistant Director (Exhibition Cell) on regular basis on absorption with effect from 29-5-2001.

M. SUBBARAYAN, Under Secy.

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT &amp; HIGHWAYS

New Delhi, the 19th July 2001

No. A-12025/2/2000-EIL.—The President is pleased to appoint Shri Kunji Lal Maena as Assistant Executive Engineer in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/- w.e.f. 5-7-2001 (F/N) until further orders.

P. S. RANA, Under Secy.

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th July 2001

No. E(O)III-2001/RN/08.—Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri R. K. Wadhwa, Senior Scale/IRSMF, has resigned from Railway service with effect from 17-4-2001 (A/N).

R. K. SINGH  
Secretary, Railway Board &  
Ex-Officio Additional Secy.

## MINISTRY OF SHIPPING

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 13th July 2001

File No. LH-21012/1/2000-SL.—The President is pleased to promote Shri B. Bhattacharjee, Scientific Assistant to the post of Research Officer (Rs. 8000—13,500/-) in the Department of Lighthouses & Lightships w.e.f. the forenoon of 16th May, 2001, until further orders subject to the final decision of the CAT, Calcutta Bench in O.A. No. 1180/2000.

MUNSHI RAM, Under Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION &amp; BROADCASTING

New Delhi, the 13th July 2001

No. PI/895/IS.—On his attaining the age of superannuation, Shri Amar Nath Kokaria, a Senior Grade Officer of Indian Information Service Group 'A' retired from Govt. service in the afternoon of 31st May, 2001.

2. Shri Kokaria relinquished the charge of the post of Public Relations Officer, Directorate (Defence), Jammu on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy

New Delhi, the 21st June 2001

No. 3 14/2000-Admn.II.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers Grade for the year 1999 against Seniority Quota, the President is pleased to appoint Shri A. K. Guha, Assistant of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs, as Section Officer on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting w.e.f. the forenoon of 20-6-2001. He is posted in the PB(DG:DD) w.e.f. the same date vice Shri S. Twickly, DDA, PB(DG:DD) transferred to Ministry of Home Affairs.

H. G. UPRETI, Under Secy.

The 2nd July 2001

No. 8/2/2001-Admn.II.—Consequent upon his nomination to the Ministry by Department of Personnel and Training on the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 1999 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri V.S.R. Murthy, Personal Assistant of CSSS Cadre of the Ministry of Home Affairs as Private Secretary (Gr. 'A&B' merged) of CSSS Cadre of this Ministry in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- with effect from 29th June, 2001 (F/N).

2. He will be on trial for a period of two years w.e.f. the date of his appointment which may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority.

3. Shri V.S.R. Murthy also stands relieved from CSSS Cadre of this Ministry w.e.f. the forenoon of 29th June, 2001 with direction to report for duty in the same capacity to the Department of Disinvestments, Block No. 14, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.

H. G. UPRETI, Under Secy.

The 4th July 2001

No. 5 3/2001 Admn.II.—In pursuance of DP&TS O.M. No. 11/3/2001-FO(MM-I) dated 14th May 2001, the President is pleased to appoint Shri V. Sahai, IDAS(91) as Deputy Secretary in the scale of pay Rs. 12000-375-16500/- in the Ministry of I&B on central deputation for a period of 4 years w.e.f. the forenoon of 4th July, 2001.

H. G. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 10th July 2001

No. 1/2(9) 2000-F(S).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Ms. Premalata Mullick, Administrative Officer, to the post of Assistant Director (Administration), General Central Service, Group 'A' (Gazetted), in the pay scale of Rs. 8060—13,500/- in Song and Drama Division, New Delhi, on promotion w.e.f. 16-3-2001 (F/N).

P. K. BANERJEE, Desk Officer

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND  
POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 2nd July 2001

No. A-19011/6/2000-Admn.I.—The President is pleased to appoint Smt. Nisha Singh, IAS(HP : 87), presently working as Deputy Secretary in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation as Director in the pay scale of Rs. 15,100-400-18,300/- in this Ministry with effect from 1-7-2001 (FN) by upgrading the post of Deputy Secretary presently held by her to the level of Director as a measure personal to her, for the remaining period of her tenure i.e. upto 16-2-2005 or until further orders, whichever is earlier.

D. K. PALIWAL, Under Secy.

No. A-22012/1/2001-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri B. B. Singh, IRSEE (84) as Director in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation in the scale of Rs. 14,300—18,300 on Central tenure deputation basis with effect from 28-6-2001 (F/N) for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. On his appointment as Director in this Ministry, he is posted as Joint Director (Admn.) in the Dte of Printing with effect from 28-6-2001 (FN), until further orders vice Shri Jayesh Kumar.

3. The post of Joint Director (Admn.) (Deputy Secretary level) in the Dte. of Printing is upgraded to the level of Director with effect from 28-6-2001 (FN) as personal to Shri B. B. Singh.

D. K. PALIWAL, Under Secy.



No. A-22012/1/2001-Admn-I.—The President is pleased to appoint Shri A. M. Reddy, IRTS (87) Deputy Secretary who is presently holding the post of Director of Administration in the DG(W), CPWD (Deputy Secretary level post), as Director in the scale of pay of Rs. 14,300-430-18-300 by upgrading the post held by him to the level of Director as a measure personal to him w.e.f. 1-7-2001 for the period upto 27-5-2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. K. PALIWAL, Under Secy.

(DELHI DIVISION)

New Delhi-110 011, the 17th July 2001

No. L 11011/36/99-DDIA.—The President is pleased to appoint Shri A. M. Sharan, IAS (11Y : 90) as Commissioner (Land Disposal) in the Delhi Development Authority at the level of Deputy Secretary for a period of four years from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. K. MISRA, Under Secy.

